



July 16, 2021

Listing Compliance Department  
National Stock Exchange of India Limited.  
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai 400051  
Fax: 022-26598235/36

Listing Compliance Department  
BSE Limited.  
Phirozee Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai - 400 001

NSE Symbol: VIKASECO

Scrip Code: 530961

**Sub: Newspaper publication of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and financial year ended March 31, 2021 and Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2021**

Dear Sir/Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and financial year ended March 31, 2021 and Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2021, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated July 16, 2021 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above information is also available on the Company's website at [www.vikasecotech.com](http://www.vikasecotech.com).

You are requested to take the information on record and oblige.

Yours Faithfully,

for Vikas Ecotech Limited

Vikas Garg  
Managing Director  
DIN: 00255413



**Karma Energy**  
 L31101MH2007PLC168823  
 Regd. Office : Regd. Office : 214, Empire House,  
 Dr. D. N. Road, Ent. A.K. Nayak Marg, Fort, Mumbai - 400001.  
 Tel Nos. : 22071501-06 Fax : 22071514  
 Email : investorshelpdesk@weizmann.co.in  
 Visit us at : www.karmaenergy.co

**NOTICE**  
**Mandatory transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority")**

(For attention of the Equity Shareholders of the Company)  
 Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) which have come into force from 7th September, 2016 which were further amended on 13th October, 2017, the Equity Shares of the Company in respect of which the dividend has not been paid or claimed during the past seven consecutive years from 2013-14 are required to be transferred to the IEPF Authority.

Adhering to the requirements set out in the Rules, notice is being sent individually to the concerned shareholders for taking appropriate action(s). However due to the impact of Covid-19 pandemic in India, there is possibility that the notice being sent to individual shareholders may not be delivered or may not be received by the shareholders or received late

The Company has uploaded the details of such shareholders and their equity shares due for transfer, including their Folio Nos. or DP ID - Client ID details, on its website www.karmaenergy.co. The shareholders are requested to visit the website in order to verify the details of the equity shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

In case the Company does not receive any valid claim from the concerned shareholders before 30th September, 2021, the Company shall with a view to comply with the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date by following the due process as enumerated in the Rules which is briefly as under :

- i) In case of shares held in physical form : The Company would be issuing duplicate share certificates in lieu of the original share certificates and will convert them in DEMAT form for the purpose of transfer to the IEPF Authority. Upon such issuance, the original share certificates will stand automatically cancelled and will be deemed non- negotiable thereafter.
- ii) In case of shares held in demat form : The shares will be transferred to IEPF Authority by way of Corporate Action.

Kindly note that all future benefits, dividends, if any, arising on such shares would be transferred to IEPF Authority. The shareholders may further note that this notice and the details uploaded by the Company on its website should be considered as adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificates by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority, pursuant to the Rules.

You may be pleased to note that the Equity shares transferred to IEPF Authority, including the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority upon following the procedure prescribed under the Rules. The Rules are available on the website of the IEPF Authority at www.iepf.gov.in. In case, the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, **Bigshare Services Private Limited**, 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai-400059, Contact Nos. : 022 - 62638200, Email: investor@bigshareonline.com

For Karma Energy Limited  
 Sd/-  
**T. V. Subramanian**  
 CFO & Company Secretary  
 Place: Mumbai  
 Date: 15.07.2021

**RLDA invites bids for leasing land parcels in West Bengal, Assam**

**FE BUREAU**  
 New Delhi, July 15

**THE RAIL LAND DEVELOPMENT Authority (RLDA) has invited bids for leasing vacant railway land at Salt Golah, Howrah in West Bengal and for leasing of a vacant land parcel for residential-cum-commercial development at Ambari chowk in Guwahati, Assam.**



The site in Howrah spans across an area of 88,300 sqm and is located on a 20-metre-wide highway along the Hooghly riverbank, at a distance of 1.5 km from Howrah Station. It is well-connected through road and river transport. The built-up area offered is 2,64,900 sqm and the land parcel is proposed to be leased out for 99 years with a reserve price of ₹448 crore. The pre-bid meeting was held earlier this month on July 7 and saw a good response from national and local developers. The deadline for bid submission is August 29, 2021. The railway land parcel at Salt Golah, Howrah, can be used for residential cum commercial development.

Water sports facilities can also be developed here. The lessee will be given controlled and regulated marketing rights and will be mandated to develop the site within ten years. The land parcel in Guwahati spans 9,488.22 sqm and is situated in the heart of the city, at a prominent corner location of Ambari Chowk, about 1.30 km from Guwahati railway station. It has a potential BUA of 26,092.61 sqm and has a reserve price of ₹69.90 crore for a lease term of 99 years. The online pre-bid conference conducted by RLDA on June 25, had 13 local and national developers participating in the meeting. The deadline for submission of e-bids is August 6, 2021.

It has a potential BUA of 26,092.61 sqm and has a reserve price of ₹69.90 crore for a lease term of 99 years. The online pre-bid conference conducted by RLDA on June 25, had 13 local and national developers participating in the meeting. The deadline for submission of e-bids is August 6, 2021.

**Angel One**  
**Angel Broking Limited**  
 CIN: L67120MH1996PLC101709  
 Regd. Office: G-1, Akruli Trade Centre, MIDC, Road No-7, Andheri (E), Mumbai - 400 093  
 Tel: (022) 68070100 | Fax: (022) 68070107  
 Corporate Office: 6th Floor, Akruli Star, Central Road, MIDC, Andheri (E) Mumbai-400 093.  
 Tel: (022) 40003600 | Fax: (022) 39357699  
 Website: www.angelbroking.com | Email: investors@angelbroking.com

**Extract of the Statement of the unaudited consolidated financial results for the quarter ended 30 June 2021**

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		
		30 June 2021 (Unaudited)	31 March 2021 (Audited)	30 June 2020 (Audited)
1	Revenue from operations	4,626.68	12,836.84	2,384.24
2	Profit before tax	1,622.25	4,111.67	646.29
3	Loss after tax from discontinued operations	(0.64)	(12.02)	(9.59)
4	Profit for the period/year	1,213.67	2,968.56	473.00
5	Total Comprehensive Income for the period/year	1,207.27	2,956.06	468.52
6	Equity Share capital	823.70	818.27	719.95
7	Other Equity	-	10,491.70	-
8	<b>Earnings per equity share (FY Rs. 10 each) (not annualised for interim period)</b>			
	Basic EPS from continuing operations	14.80	38.75	6.70
	Diluted EPS from continuing operations	14.59	38.48	6.70
	Basic EPS from discontinued operations	(0.01)	(0.16)	(0.13)
	Diluted EPS from discontinued operations	(0.01)	(0.16)	(0.13)
	Basic EPS from total operations	14.79	38.60	6.57
	Diluted EPS from total operations	14.58	38.32	6.57

**Extract of the Statement of the unaudited standalone financial results for the quarter ended 30 June 2021**

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		
		30 June 2021 (Unaudited)	31 March 2021 (Audited)	30 June 2020 (Audited)
1	Total revenue from operations	4,587.22	12,504.72	2,360.91
2	Profit before tax	1,578.64	3,981.79	511.09
3	Profit for the period/year	1,178.52	2,903.97	381.83
4	Total Comprehensive Income for the period/year	1,172.41	2,892.40	377.65
5	Equity Share capital	823.70	818.27	719.95
6	Other Equity	-	10,202.50	-
7	<b>Earnings per equity share (FY Rs. 10 each) (not annualised for interim period)</b>			
	Basic EPS	14.36	37.76	5.30
	Diluted EPS	14.16	37.49	5.30

The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated and standalone financial results for the quarter ended on 30 June, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30 June, 2021 is available on the website of National Stock Exchange of India i.e. www.nseindia.com and on the website of the Company i.e. www.angelbroking.com

For Karma Energy Limited  
 Sd/-  
**T. V. Subramanian**  
 CFO & Company Secretary  
 Place: Mumbai  
 Date: 15 July, 2021

**VIKAS ECOTECH LIMITED**

CIN - L65999DL1984PLC019465  
 REGD OFF: VIKAS HOUSE, 34/1, EAST PUNJABI BAGH, NEW DELHI - 110026,  
 PH NO: 011-43144444 | FAX: 011-43144488 | E-MAIL: info@vikasecotech.com

**STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2021**

S. No.	Particulars	Three Months Ended			Year Ended	
		31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)
I	Revenue from operations	3,673.74	3,635.37	2,839.78	11,617.77	19,218.86
II	Other Income	81.60	(106.43)	398.69	455.74	700.74
III	<b>Total Revenue (I+II)</b>	<b>3,755.34</b>	<b>3,528.94</b>	<b>3,238.47</b>	<b>12,073.51</b>	<b>19,919.60</b>
IV	<b>Expenses:</b>					
	Cost of material consumed	3,746.13	3,469.00	2,535.65	10,492.12	16,391.30
	Change in Inventories of finished goods, stock-in-trade and work in progress	-	-	-	-	-
	Employee Benefit Expense	25.97	79.79	111.88	240.15	312.78
	Financial Costs	558.96	545.17	432.02	1,816.23	1,941.33
	Depreciation and Amortization Expense	108.24	133.49	96.02	396.30	476.81
	Other Expenses	324.79	277.89	56.91	436.06	1,346.29
	<b>Total Expenses</b>	<b>4,764.09</b>	<b>4,505.34</b>	<b>3,232.48</b>	<b>13,380.86</b>	<b>20,468.51</b>
V	Profit before Exceptional Items and Tax	(1,008.75)	(976.40)	5.99	(1,307.35)	(548.91)
VI	Exceptional items	-	-	-	-	837.30
VII	Profit/(loss) before Tax	(1,008.75)	(976.40)	5.99	(1,307.35)	288.39
VIII	<b>Tax Expense:</b>					
	(1) Current Tax	(0.01)	(179.98)	4.46	0.03	100.40
	(2) Deferred Tax	29.63	(3.49)	-	29.63	(3.49)
	(3) Previous Year Income Tax & Interest	54.00	(113.37)	-	98.00	89.66
IX	Profit/(Loss) from the period from Continuing Operations	(1,092.37)	(679.56)	1.53	(1,435.01)	101.82
X	Profit or Loss from Discontinued Operations	-	-	-	-	-
XI	Tax Expense of Discontinuing Operations	-	-	-	-	-
XII	Profit/(Loss) from Discontinuing operations after Tax (X-XI)	-	-	-	-	-
XIII	Profit/(Loss) for the period (IX+XII)	(1,092.37)	(679.56)	1.53	(1,435.01)	101.82
XIV	<b>Other comprehensive income</b>					
A	(i) Items that will not be reclassified to profit or loss	(0.04)	0.19	18.07	0.12	10.49
	(ii) Income Tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss.	0.01	(0.05)	(4.54)	(0.03)	(2.64)
B	(i) Items that will be reclassified to profit or loss.	-	-	-	-	-
	(ii) Income Tax relating to items that will be reclassified to profit or loss.	-	-	-	-	-
XV	<b>Total comprehensive income (Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)</b>	<b>(1,092.40)</b>	<b>(679.42)</b>	<b>15.06</b>	<b>(1,434.92)</b>	<b>109.67</b>
XVI	Paid up equity share capital (Face value of the share shall be indicated)	2,799.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00
XVII	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	10,078.89	11,490.53	11,148.01	10,078.89	11,490.53
XVIII	<b>Earning per Equity Share:</b>					
	(1) Basic	(0.39)	(0.24)	0.01	(0.51)	0.04
	(2) Diluted	(0.39)	(0.24)	0.01	(0.51)	0.04

**STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2021**

Sr. No.	Particulars	Three Months Ended			Year Ended
		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
I	Revenue from operations	1,809.68	3,673.74	746.82	11,617.77
II	Other Income	35.85	81.60	14.51	455.74
III	<b>Total Revenue (I+II)</b>	<b>1,845.53</b>	<b>3,755.34</b>	<b>761.33</b>	<b>12,073.51</b>
IV	<b>Expenses:</b>				
	Cost of material consumed	1,483.85	3,746.13	688.06	10,492.12
	Change in Inventories of finished goods, stock-in-trade and work in progress	-	-	-	-
	Employee Benefit Expense	56.33	25.97	42.66	240.15
	Financial Costs	447.85	558.96	385.94	1,816.23
	Depreciation and Amortization Expense	89.55	108.24	95.37	396.30
	Other Expenses	159.92	324.79	78.06	436.06
	<b>Total Expenses</b>	<b>2,237.50</b>	<b>4,764.09</b>	<b>1,290.09</b>	<b>13,380.86</b>
V	Profit before Exceptional Items and Tax	(391.97)	(1,008.75)	(528.76)	(1,307.35)
VI	Exceptional items	-	-	-	837.30
VII	Profit/(loss) before Tax	(391.97)	(1,008.75)	(528.76)	(1,307.35)
VIII	<b>Tax Expense:</b>				
	(1) Current Tax	1.08	(0.01)	-	0.03
	(2) Deferred Tax	-	29.63	-	29.63
	(3) Previous Year Income Tax & Interest	-	54.00	-	98.00
IX	Profit/(Loss) from the period from Continuing Operations	(393.05)	(1,092.37)	(528.76)	(1,435.01)
X	Profit or Loss from Discontinued Operations	-	-	-	-
XI	Tax Expense of Discontinuing Operations	-	-	-	-
XII	Profit/(Loss) from Discontinuing operations after Tax (X-XI)	-	-	-	-
XIII	Profit/(Loss) for the period (IX+XII)	(393.05)	(1,092.37)	(528.76)	(1,435.01)
XIV	<b>Other comprehensive income</b>				
A	(i) Items that will not be reclassified to profit or loss	4.30	(0.04)	(0.66)	0.12
	(ii) Income Tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss.	(1.08)	0.01	0.17	(0.03)
B	(i) Items that will be reclassified to profit or loss.	-	-	-	-
	(ii) Income Tax relating to items that will be reclassified to profit or loss.	-	-	-	-
XV	<b>Total comprehensive income (Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)</b>	<b>(389.83)</b>	<b>(1,092.40)</b>	<b>(529.25)</b>	<b>(1,434.92)</b>
XVI	Paid up equity share capital (Face value of the share shall be indicated)	2,799.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00
XVII	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	9,685.84	10,078.89	10,961.77	10,078.89
XVIII	<b>Earning per Equity Share:</b>				
	(1) Basic	(0.14)	(0.39)	(0.19)	(0.51)
	(2) Diluted	(0.14)	(0.39)	(0.19)	(0.51)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of Quarterly Financial Result are available on the website of the Stock Exchange.

For Vikas Ecotech Limited  
 Sd/-  
**Vikas Garg**  
 Managing Director  
 DIN: 00255413  
 Place: New Delhi  
 Date: 14/07/2021

**UPL Limited**  
 CIN: L24219GJ1985PLC025132  
 Regd. Office: 3-11, G.I.D.C., Vapi, Dist. Valsad, Gujarat - 396 195  
 Telephone: +91 260 2432716 | Email: upl.investors@upl-ltd.com | Website: www.upl-ltd.com

**NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF UPL LIMITED 37TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING**

1. Notice is hereby given that the Thirty-seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing/Other Audio-visual Means ("VC facility") on Friday, August 6, 2021 at 3:00 p.m. (IST), in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with the General Circulars/Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "applicable circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC facility or view the live webcast of the AGM at <https://www.evoting.nsdl.com>. Members participating through the VC facility shall be deemed to be present at the AGM and their presence shall be reckoned for the purpose of quorum.

2. In compliance with the relevant circulars, the Notice convening the AGM and the standalone and consolidated financial statements for FY2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on Thursday 15th July, 2021 to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also made available on the Company's website at [www.upl-ltd.com](http://www.upl-ltd.com), website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <https://www.evoting.nsdl.com>.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by a Member from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Member seeking to inspect such documents can send an email to [upl.investors@upl-ltd.com](mailto:upl.investors@upl-ltd.com).

- 3. **Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:**
  - a. The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of NSDL during the period mentioned herein below ("remote e-voting").
  - b. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM through VC facility who have not cast their vote(s) by remote e-voting and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM.
  - c. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.
  - d. The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility.
  - e. Information and instructions for participating through VC facility and the process of evoting are provided as part of the Notice of the AGM.
  - f. The remote e-voting facility will be available during the following period:  
**Commencement of remote e-voting : 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, August 3, 2021**  
**End of remote e-voting : 5.00 p.m. (IST) on Thursday, August 5, 2021**
  - g. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, he shareholder shall not be allowed to change it subsequently. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, July 30, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.
  - h. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, July 30, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting, then such person can use existing user ID and password for casting vote.

- 4. **Manner of registering /updating email id with the Company / Depositories:**
  - a. Members holding shares in physical mode can register/update their email id by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at [upl.investors@upl-ltd.com](mailto:upl.investors@upl-ltd.com) or to Link Intime India Private Limited at [rt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rt.helpdesk@linkintime.co.in)
  - b. Members holding shares in dematerialised mode can register/update their email-id with the Depository Participants with whom they maintain their demat account.
- 5. **Process for procuring user id and password for e-voting for those shareholders whose email id's are not registered is as under:**
  - a. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self



**सावधानक सूचना**  
 प्रकृत सूचना आह्वान सं-26  
 (कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार)  
 क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ, नई दिल्ली के संश्लेषण अधिनियम, 2013 की धारा 12 और 13 के तहत नई दिल्ली के 'बायोसाइंस प्रोडक्ट लिमिटेड' की सावधानक सूचना U74140HR2015PTC057274 इसका पंजीकृत कार्यालय: 'प्लॉट नंबर 6 गुरुकुल औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 38, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 कम्पनी के मागले में' .....आवेदक/याचिकाकर्ता एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत याचिकाकर्ता कम्पनी द्वारा माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है, जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' में स्थानांतरित करने के लिए 06 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संसम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित मेमोरेण्डम ऑफ एंटीपिपिशन के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को भी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में सूचित कर सकता है। याचिकाकर्ता कम्पनी को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह) दिनों के भीतर, उसके पंजीकृत कार्यालय में एक हलफनामे द्वारा समर्थित, प्रस्तावित याचिका के हित की प्रकृति और विषय / आपत्तियों के आधार, यदि कोई हो, की प्रतिलिपि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजे। नई दिल्ली के लिए और उसकी ओर से बायोसाइंस प्रोडक्ट लिमिटेड (हस्ता./-) अर्जुन खन्ना (निदेशक) स्थान: हरियाणा दिनांक: 15.07.2021 DIN: 05310529

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार  
 कार्यालय: सहायक आयुक्त (डी) वरुणालय फेज-II, करोल बाग, नई दिल्ली-110005  
 कारोना रोकें  
 "अपना हाथ साफ रखें", "मास्क पहनें" "सामाजिक दूरी का पालन करें"  
 दिल्ली जल बोर्ड  
 सलाहकार (विधि) की भर्ती  
 किसी भी व्यक्ति प्राप्त सरकारी संस्थान में पर वैध-4 में मुख्य अधिकारी/विधि अधिकारी के रूप में कानूनी विषयों का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले तथा कार्य किये होने वाले अथवा राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य जिनके पास 16 वर्षों का अनुभव हो, से दिल्ली जल बोर्ड में सलाहकार (विधि) के रूप में भर्ती के लिये अन्यायितियों से आवेदन आमंत्रित है। अन्यायियों की आयु आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सहायक आयुक्त (डी) के कार्यालय, दिल्ली जल बोर्ड, कमरा सं. 211, दूसरा तल, वरुणालय फेज-II, करोल बाग, नई दिल्ली में पहुंच जाना चाहिए। आवेदन का प्रारूप दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट अर्थात् www.delhijalboard.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।  
 हस्ता./- (वीरेंद्र सिंह) सहायक आयुक्त (डी)

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India**  
 1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911  
 शाखा कार्यालय: ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020  
 प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एतद्वारा कर्जदारों/गारंटर्स को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते हैं। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
<b>कर्जदार:</b> श्री नजर सिंह, पुत्र श्री मनजीत सिंह (1) के-3, पहला तल, मुखराम गार्डन, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018. (2) द्वारा फैशन पैराडाइज़, डब्ल्यूजेड-8, चौखण्डी, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018. (3) प्लेट नं.61 एवं 62, गली नं.20, संततगढ़ एक्सटेंशन (पूर्व) नई दिल्ली-110018.	भू सम्पत्ति सं. का ईएम/आरएम छत के अधिकारों के साथ तीसरी मंजिल का प्लेट, सम्पत्ति सं. 61 एवं 62 में से, 50 वर्ग मीटर की भूमि, खसरा सं. 9/14 में से, गौत चौखंडी, दिल्ली राज्य, दिल्ली कालोनी के क्षेत्र में स्थित है, जिसे संततगढ़ एक्सटेंशन (पूर्व) नई दिल्ली-110018 के नाम से जाना जाता है। जो धारा है- उत्तर: उक्त भूखण्ड का भाग दक्षिण: भूखण्ड का हिस्सा पूर्व: उक्त भूखण्ड का भाग पश्चिम: गली 15 फीट चौड़ी	01/05/2021 को एनपीए 11/05/2021 को बकाया रु.14,38,169/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को गृहण के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।  
 पूर्व की शुरु की गई सरफेसी कार्यवाही यदि कोई हो तो वापस लिया जाता है।  
 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 11/05/2021 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली

**श्रेष्ठा सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड**  
 सावधानक सूचना U67120DL1996PTC038357  
 पंजीकृत कार्यालय: म.नं. 582, प्रथम तल, बीएलके-सी, सरस्वती विहार, पीएमयू, दिल्ली-110034  
 ई-मेल: sole.annu@gmail.com  
 दूरभाष नं.: 011-27032701  
 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आर के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के खोले की सार्वजनिक सूचना  
 एतद्वारा जनसामान्य से निवेदन किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है, तो कृपया इसे म.नं. 582, प्रथम तल, बीएलके-सी, सरस्वती विहार, पीएमयू दिल्ली-110034 पर वापस कर दें।  
 चेतावनी: कृपया इसे पंजीकरण प्रमाणपत्र का दुरुपयोग न करने हेतु चेतावनी मांते। पंजीकरण प्रमाणपत्र का कोई दुरुपयोग कानून के तहत अपराध और दण्डनीय होगा।  
 श्रेष्ठा सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उन्की ओर से ह./- स्थान: नई दिल्ली आनन्द कुमार तिथि: 15.07.2021 डीआईएन: 01381489

**ROLLATINERS LIMITED**  
 (CIN: L21014HR1968PLC004844)  
 Regd. Office: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District-Rewari  
 Rewari-123106  
 Phone: 01274-243326, 242220  
 E-mail: cs.rollatiners@gmail.com  
 Website: www.rollatiners.in  
**POSTPONEMENT OF BOARD MEETING**  
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was re-scheduled to be held on Thursday, July 15, 2021, is now postponed and further re-scheduled to be held on Friday, July 23, 2021 inter alia, to consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2021.  
 The said Notice may be accessed on the Company's website at www.rollatiners.in and the website of BSE www.bseindia.com and NSE i.e. www.nseindia.com  
 For Rollatiners Limited Sd/-  
**Pyush Gupta**  
 (Director)  
 Date: 15.07.2021  
 Place: New Delhi DIN: 03392865

विकास इकोटेक लिमिटेड  
 सावधानक सूचना U65999DL1984PLC019465  
 पंजीकृत कार्यालय: विकास हाउस, 34/71, पूर्व पंचसती बाग, नई दिल्ली-110026, फोन नंबर: 011-43144444 | विवरण: 011-43144488 | ई-मेल: info@vikasotec.com  
 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए विवरण संशोधित पत्राचार

क्रम सं.	विवरण	समान तिमाही		समान वर्ष	
		31.03.2021 (अंकेक्षण)	31.03.2020 (अंकेक्षण)	31.03.2021 (अंकेक्षण)	31.03.2020 (अंकेक्षण)
I	प्रचालनी से चलन	3,673.74	3,635.37	2,839.78	11,617.77
II	अन्य आय	81.60	(106.43)	398.69	455.74
III	कुल आय (I+II)	<b>3,755.34</b>	<b>3,528.94</b>	<b>3,238.47</b>	<b>12,073.51</b>
IV	व्यय				
	खर्च सामग्री का लगन	3,746.13	3,469.00	2,535.65	10,492.12
	वैध सामग्री, व्यापार में भंडार तथा प्रगति में कार्य की इन्वेन्ट्री में परिवर्तन	-	-	-	-
	कर्मचारी लगन व्यय	25.97	79.79	111.88	240.15
	वित्तीय लगन	558.96	545.17	432.02	1,816.23
	मूल्यवर्धन तथा परिकल्पना व्यय	108.24	133.49	96.02	396.30
	अन्य व्यय	324.79	277.89	56.91	436.06
	कुल व्यय	<b>4,764.09</b>	<b>4,505.34</b>	<b>3,232.48</b>	<b>13,380.86</b>
V	निहित मंडो तथा कर से पूर्व लाभ	<b>(1,008.75)</b>	<b>(976.40)</b>	<b>5.99</b>	<b>(1,307.35)</b>
VI	निहित मंडो	-	-	-	837.30
VII	कर से पूर्व लाभ/(हानि)	<b>(1,008.75)</b>	<b>(976.40)</b>	<b>5.99</b>	<b>(1,307.35)</b>
VIII	कर व्यय				
	1. चालू कर	(0.01)	(179.98)	4.46	0.03
	2. आर्यवर्धित कर	29.63	(3.49)	-	29.63
	3. पूर्व वर्ष में आर्यवर्धित एवं व्याज	54.00	(113.37)	-	98.00
IX	अन्ततः प्रचालनी से अवधि के लिये लाभ/(हानि)	<b>(1,092.37)</b>	<b>(679.56)</b>	<b>1.53</b>	<b>(1,435.01)</b>
X	अवरुद्ध प्रचालनी से लाभ अथवा हानि	-	-	-	-
XI	अवरुद्ध प्रचालनी का कर व्यय	-	-	-	-
XII	कर से बाद अवरुद्ध प्रचालनी से लाभ/(हानि) (X-XI)	-	-	-	-
XIII	अवधि के लिये लाभ/(हानि) (IX-XII)	<b>(1,092.37)</b>	<b>(679.56)</b>	<b>1.53</b>	<b>(1,435.01)</b>
XIV	अन्य व्यय/अन्य आय				
	(क) i) रेस्ते मंडो से जो लाभ या हानि में पुनर्वर्णित नहीं होती	(0.04)	0.19	18.07	0.12
	ii) मंडो जो लाभ या हानि में पुनर्वर्णित नहीं होती से संबंधित आर्यवर्धित	0.01	(0.05)	(4.54)	(0.03)
	(ख) i) रेस्ते मंडो से जो लाभ या हानि में पुनर्वर्णित नहीं होती	-	-	-	-
	ii) मंडो जो लाभ या हानि में पुनर्वर्णित नहीं होती से संबंधित आर्यवर्धित	-	-	-	-
XV	कुल व्यय/अन्य आय (अवधि के लिये लाभ (हानि) तथा अन्य व्यय/अन्य आय से सम्बन्धित)	<b>(1,092.40)</b>	<b>(679.42)</b>	<b>15.06</b>	<b>(1,434.92)</b>
XVI	प्रवर्धित रिजर्व्टी रेस्ते पुंजी (रेस्ते का राम मूल्य दर्शाया जायेगा)	2,799.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00
XVII	पूर्व लेखा वर्ष के नुतन वर्ष के अनुसार पुनर्वर्णित आर्यवर्धित के अतिरिक्त आर्यवर्धित	10,078.89	11,490.53	11,148.01	10,078.89
XVIII	अन्य प्रति रेस्ते				
	(1) मूल	(0.39)	(0.24)	0.01	(0.51)
	(2) तल	(0.39)	(0.24)	0.01	(0.51)

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए विवरण संशोधित पत्राचार

क्रम सं.	विवरण	समान तिमाही		समान वर्ष	
		30.06.2021 (अंकेक्षण)	31.03.2021 (अंकेक्षण)	30.06.2020 (अंकेक्षण)	31.03.2021 (अंकेक्षण)
I	प्रचालनी से चलन	1,809.68	3,673.74	746.82	11,617.77
II	अन्य आय	35.85	81.60	14.51	455.74
III	कुल आय (I+II)	<b>1,845.53</b>	<b>3,755.34</b>	<b>761.33</b>	<b>12,073.51</b>
IV	व्यय				
	खर्च सामग्री का लगन	1,483.85	3,746.13	688.06	10,492.12
	वैध सामग्री, व्यापार में भंडार तथा प्रगति में कार्य की इन्वेन्ट्री में परिवर्तन	-	-	-	-
	कर्मचारी लगन व्यय	56.33	25.97	42.66	240.15
	वित्तीय लगन	447.85	558.96	385.94	1,816.23
	मूल्यवर्धन तथा परिकल्पना व्यय	89.55	108.24	95.37	396.30
	अन्य व्यय	159.92	324.79	78.06	436.06
	कुल व्यय	<b>2,237.50</b>	<b>4,764.09</b>	<b>1,290.09</b>	<b>13,380.86</b>
V	निहित मंडो तथा कर से पूर्व लाभ	<b>(391.97)</b>	<b>(1,008.75)</b>	<b>(528.76)</b>	<b>(1,307.35)</b>
VI	निहित मंडो	-	-	-	837.30
VII	कर से पूर्व लाभ/(हानि)	<b>(391.97)</b>	<b>(1,008.75)</b>	<b>(528.76)</b>	<b>(1,307.35)</b>
VIII	कर व्यय				
	1. चालू कर	1.08	(0.01)	-	0.03
	2. आर्यवर्धित कर	-	29.63	-	29.63
	3. पूर्व वर्ष में आर्यवर्धित एवं व्याज	-	54.00	-	98.00
IX	अन्ततः प्रचालनी से अवधि के लिये लाभ/(हानि)	<b>(393.05)</b>	<b>(1,092.37)</b>	<b>(528.76)</b>	<b>(1,435.01)</b>
X	अवरुद्ध प्रचालनी से लाभ अथवा हानि	-	-	-	-
XI	अवरुद्ध प्रचालनी का कर व्यय	-	-	-	-
XII	कर से बाद अवरुद्ध प्रचालनी से लाभ/(हानि) (X-XI)	-	-	-	-
XIII	अवधि के लिये लाभ/(हानि) (IX-XII)	<b>(393.05)</b>	<b>(1,092.37)</b>	<b>(528.76)</b>	<b>(1,435.01)</b>
XIV	अन्य व्यय/अन्य आय				
	(क) i) रेस्ते मंडो से जो लाभ या हानि में पुनर्वर्णित नहीं होती	4.30	(0.04)	(0.66)	0.12
	ii) मंडो जो लाभ या हानि में पुनर्वर्णित नहीं होती से संबंधित आर्यवर्धित	(1.08)	0.01	0.17	(0.03)
	(ख) i) रेस्ते मंडो से जो लाभ या हानि में पुनर्वर्णित नहीं होती	-	-	-	-
	ii) मंडो जो लाभ या हानि में पुनर्वर्णित नहीं होती से संबंधित आर्यवर्धित	-	-	-	-
XV	कुल व्यय/अन्य आय (अवधि के लिये लाभ (हानि) तथा अन्य व्यय/अन्य आय से सम्बन्धित)	<b>(389.83)</b>	<b>(1,092.40)</b>	<b>(529.25)</b>	<b>(1,434.92)</b>
XVI	प्रवर्धित रिजर्व्टी रेस्ते पुंजी (रेस्ते का राम मूल्य दर्शाया जायेगा)	2,799.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00
XVII	पूर्व लेखा वर्ष के नुतन वर्ष के अनुसार पुनर्वर्णित आर्यवर्धित के अतिरिक्त आर्यवर्धित	9,685.84	10,078.89	10,961.77	10,078.89
XVIII	अन्य प्रति रेस्ते				
	(1) मूल	(0.14)	(0.39)	(0.19)	(0.51)
	(2) तल	(0.14)	(0.39)	(0.19)	(0.51)

**Form No. INC-26**  
 [Pursuant to rules 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]  
**Before the Central Government, (Regional Director Haryana) Northern region**  
**In the matter of sub-section (4) of section 13 of Companies Act, 2013 and clauses (a) of Sub-rule (5) of rule 30 of the companies (incorporation) rules 2014 and**  
**In the matter of Algomind Wealth Management Private Limited having its registered office at office No.63 sector-4, Lane Canon Enclave, Gurgaon, Haryana - 122001**  
 .....Petitioner  
 Notice is hereby given to the General Public that the company propose to make application to the Central Government (Regional Director, Northern Region Haryana) under section-13 of the company Act,2013 seeking Confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in the terms of the special resolution passed at Extra ordinary general meeting held on 06<sup>th</sup> July, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "State of Haryana to the National Capital Territory of Delhi".  
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or sent by registered post of his / her objection supported by an affidavit stating the nature of his / her are interest and grounds of opposition of the Regional Director at Northern Region, B-Block, Paryavaran Bhawan CGO Complex Lodhi Road New Delhi 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at register office at the address mentioned below  
**office number 63 Sector 4 Lane Canon Enclave Gurgaon Haryana - 121001**

**बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda**  
**अंसारी रोड शाखा**  
**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जाती है।**  
 बैंक ऑफ बड़ोदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत जलक पावती सहित / स्प्रीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नवर्णित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियों जो कि निम्नलिखित ऋणियों/जमानतदारों के नाम हैं, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कच्चा सूचना/ई-नौलमी सूचना में कर्जदार व गारंटर्स की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

कर्जदार/गारंटर के नाम एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्वॉर्ड आस्तियों का विवरण
1. श्री मोहम्मद आदिल पुत्र श्री अहमद करीम, सी-32 ब्लॉक सी, डीडीए कॉलोनी, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, नार्थ ईस्ट दिल्ली, दिल्ली 110032	मांग सूचना की तारीख 11-06-2021	साम्पिक बंधक फ्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति नं. सी-32, प्रथम तल, छत के अधिकार सहित, प्लॉट नं. सी-32 ब्लॉक सी, डीडीए कॉलोनी, न्यू जाफराबाद, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती फरजाना बानो पत्नी श्री मोहम्मद आदिल के नाम पर है।
2. श्रीमती फरजाना बानो पत्नी श्री मोहम्मद आदिल, सी-32 ब्लॉक सी, डीडीए कॉलोनी, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, नार्थ ईस्ट दिल्ली, दिल्ली 110032	रु. 104,54,026.05 दिनांक 29.01.2021 तक + अनुप्रयुक्त ब्याज + अन्य प्रभार	माहन न्यू ग्राउंड स्पोर्ट्स का दृष्टिकर्षक

ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 29-01-2021  
 उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अपोहराहारी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अधिम कार्यवाही से बच सकें।  
 दिनांक: 15.07.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ोदा

**WELSPUN INDIA Home Textiles WELSPUN INDIA LIMITED**  
 Registered Office: Welspun City, Village Versamed, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat-370 110, India.  
 Corporate Office: Welspun House, 6th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India.  
 Contact Person: Shashikant Thorat, Company Secretary and Compliance Officer, Tel.: +91 22 6613 6000; Fax: +91 22 2490 8020, E-mail: compansysecretary\_wi@welspun.com, Website: www.welspunindia.com, CIN: L17110GJ1985PLC033271

**POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF WELSPUN INDIA LIMITED**

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated May 17, 2021 and published on May 18, 2021 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated June 10, 2021 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- 1. THE BUYBACK**  
 1.1 Welspun India Limited (the "Company") had announced Buyback of not exceeding 1,66,66,666 Equity Shares (One Crore Sixty Six Lakhs Sixty Six Thousand Six Hundred Sixty Six) fully paid-up equity shares of face value of Re. 1 each ("Equity Shares") from all the existing shareholders / beneficial owners of Equity Shares as on the record date (i.e. May 26, 2021), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" process at a price of Rs. 120/- (Rupees One Hundred Twenty only) per Equity Share payable in cash for an aggregate consideration not exceeding Rs. 200 Crores (Rupees Two Hundred Crores only) ("Buyback Offer Size") representing 6.36% and 6.04% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves (including Securities Premium Account) as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2021, respectively, and is within the statutory limits of 10% (Ten Percent) of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves (including Securities Premium Account) under the Board of Directors approval route as per the provisions of the Companies Act, 2013 from the equity shareholders of the Company, as on the record date, on a proportionate basis, through the Tender Offer route as prescribed under the SEBI Buyback Regulations (hereinafter referred to as the "Buyback"). The maximum number of Equity Shares proposed to be bought back represents 1.66% of the total number of Equity Shares in the issued, subscribed and paid-up Equity Share capital of the Company.  
 1.2 The Company has adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" as provided under SEBI Buyback Regulations and circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/CIRP/2016/131 dated December 09, 2016 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").  
 1.3 The Buyback Offer opened on Tuesday, June 22, 2021 and closed on Monday, July 5, 2021.
- 2. DETAILS OF BUYBACK**  
 2.1 The total number of Equity Shares bought back under the Buyback Offer are 1,66,66,666 Equity Shares (One Crore Sixty Six Lakhs Sixty Six Thousand Six Hundred Sixty Six only) Equity Shares at a price of Rs. 120 (Rupees One Hundred Twenty only) per Equity Share.  
 2.2 The total amount utilized in the Buyback of Equity Shares is Rs. 199,99,99,920 (Rupees One Hundred Ninety Nine Crores Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Twenty only) excluding Transaction Costs any expenses incurred